

दिशा निर्देश

सामान्य दिशा निर्देश : रोज़गार समाचार का सप्ताह का प्रश्न

1. प्रविष्टियां केवल निम्नलिखित ई-मेल writetous.en@gmail.com पर भेजी जानी चाहिए।
2. प्रविष्टियां निम्नलिखित भाषाओं : अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू में से किसी एक में भेजी जानी चाहिए।
3. प्रत्येक विषय के लिए एक व्यक्ति को केवल एक ही प्रविष्टि भेजने की अनुमति होगी।
4. एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के कर्मचारियों के परिजनों और संबंधियों के अलावा भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हमें लिख सकता है।
5. प्रतियोगी अपनी प्रविष्टि के साथ अपना विवरण – नाम, आयु, पूरा पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर- का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
6. प्रविष्टि प्रतियोगी की व्यक्तिगत रचना और मौलिक होनी चाहिए। कोई भी पूर्व प्रकाशित रचना स्वीकार नहीं की जाएगी। यह पता लगाने के लिए भेजी गई सभी प्रविष्टियों की बारीकी से जांच की जाएगी कि कहीं उनमें चोरी की सामग्री का उपयोग तो नहीं किया गया है। चोरी की रचना पाए जाने वाली प्रविष्टियां अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी।
7. प्रविष्टियां की शब्द संख्या 250 (आंकड़ों और संदर्भ के बिना) से अधिक में नहीं होनी चाहिए।
8. संदर्भों का उल्लेख प्रविष्टि के अंत में होना चाहिए।
9. पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी तरह की अपील नहीं की जा सकेगी।
10. पुरस्कार निम्नलिखित हैं :-
 - “सर्वश्रेष्ठ” घोषित की गई प्रविष्टि का प्रतिभागी अपनी पसंद के अनुसार तीन माह के लिए योजना अथवा कुरुक्षेत्र अथवा आजकल की किसी एक भाषा अर्थात् अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू में निशुल्क सदस्यता प्राप्त करने का पात्र होगा।
 - “सर्वश्रेष्ठ” घोषित प्रविष्टि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/ रोज़गार समाचार के प्रिंट और ई-संस्करण में तथा employmentnews.gov.in में प्रकाशित की जाएगी।
11. प्रविष्टि को प्रकाशित करते समय किसी भी कारणवश पूर्णतया अपने विवेक के साथ उसके किसी भी हिस्से को छोड़ने, बदलने, व्याख्या करने या हटाने का अधिकार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पास सुरक्षित है।
12. प्रविष्टि का मूल्यांकन सामग्री, रचनात्मकता और भाषा के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई भी प्रविष्टि पुरस्कार योग्य न हो, तो पुरस्कार रोकने का अधिकार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पास सुरक्षित है।